



Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel.: +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200 Fax: +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail: iglho@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com

31st July, 2024

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code: 500201 Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper clippings of the Notice of 40th Annual General Meeting to be held on Wednesday, 28th August, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC)/other Audio Visual Means (OAVM).

Dear Sir,

In continuation to our earlier communication dated 30<sup>th</sup> July, 2024, we are enclosing herewith copies of newspaper clippings of the Notice published in the following newspapers on 31<sup>st</sup> July 2024 in respect of 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 read with General Circular Nos. 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 13<sup>th</sup> January, 2021, 8<sup>th</sup> December, 2021, 5<sup>th</sup> May, 2022, 28<sup>th</sup> December, 2022 and 25<sup>th</sup> September, 2023, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs:

- 1. Financial Express (All Editions) in English; and
- 2. Uttar Ujala (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For India Glycols Limited

Ankur Jain Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above.

CIN: L24111UR1983PLC009097

FINANCIAL EXPRESS

# Lovoble C LOVABLE LINGERIE LIMITED

Regd.Off: A-46, Street No.2, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra, Ph. No. +91-022-28383581 Fax No. +022-9128383582. E-mail: corporate@lovableindia.in Website: www.lovableindia.in

#### NOTICE OF 37™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of

LOVABLE LINGERIE LIMITED ("the Company") will be held on Friday, August 23, 2024 at 10.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/ OAVM to transact the business as listed in the Notice of 37th AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be reckaned for the purpose of quanum for the AGM as persection 103 of the Act. In compliance with the relevant circulars, the aforesaid Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2024 shall be sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/RTA(Link Intime India Private Limited (LIIPL))/Depository participant(s) As in July 25, 2024. The Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.lovableindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on

the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) amendment Rules, 2015 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is pleased to provide all its members (holding Shares in physical or electronic form), the facility to exercise their vote by Remote E-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services to be provided by Link Intime India Private Limited. M/s. H.K Gupta and Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote evoting procedure in a fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act 2013 & rules made there under are as follows:

1. All the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

The cut-off date is Friday, 15th August, 2024;

 Date and time of commencement of Remote e-Voting from Tuesday, 20th August, 2024 (9:00 a.m. IST)

 Date and time of end of Remote e-Voting is Thursday, 22<sup>rd</sup> August, 2024 (5:00 p.m. IST). Remote E-Voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on 22<sup>nd</sup> August, 2024. During this period, members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by

Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice may go through the Remote E-voting instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending request to instameet@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with LIIPL for remote e-voting, then the existing user ID and password may be used for casting the vote.

Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Detailed instruction for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provide in the Notice of 37" AGM.

Voting right of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share of the Company as on Friday, 16th August, 2024 ("Cut-Off Date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cutoff date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM.

In case of any grievances connected with regards to remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in or call on Tel: 022- 49186000 or send a request at instameet@linkintime.co.in.

Registration of email ID and Bank Account details:

To Registere-mail address for all future correspondence and update the Bank Account details, members are requested to please follow the below Process

Members Send a request to Ms. Link Intime India Private Limited at Holding mt.helpdesk@linkintime.co.in: Shares in To register e-mail address: Please provide Folio No., Name of

> shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN and AADHAR (self-attested scanned copy of both PANicard and Aadhaar card) Alternatively, members holding shares in Physical can also

update/upload the said information/documents on https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html Members Please contact your DP and follow the process advised by your

Holding DP Shares in Demat

The notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the Members can cast their vote through remote e-voting or by e-voting atthetimeofAGM

The Notice of AGM and Annual Report for the FY2024 has been sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Lovable Lingerie Limited Place: Mumbai Rohit Jadhav Date: 30th July, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

# INDIA GLYCOLS LIMITED

Ragd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535

E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com NOTICE REGARDING 40th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 28th August, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May. 2022, 5th January, 2023 and 7th October, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 40th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only by e-mail to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or their respective Depository Participant ("DP"), unless any member has requested for a physical copy of the same. The Notice of the 40° AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at <a href="https://www.indiaglycols.com">www.indiaglycols.com</a>, National Securities Depository Limited "NSDL")'s website at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of Stock Exchanges. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

In case you have not registered your e-mail address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for registration of e-mail id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2023-24:

Members holding shares in physical mode are requested

Demat Holding

to register/update their e-mail addresses by writing to MCS Share Transfer Agent Limited ("the RTA") at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 or e-mail at admin@mcsregistrars.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front & back). Members holding shares in dematerialized mode are requested

to register/update their e-mail addresses by following the

process mentioned above under- Physical Holding and send 16

digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned

copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat

Account Statement. For permanent registration of e-mail address, Member holding shares in physical form should furnish details to RTA in form ISR-1. Members holding shares in electronic form should approach their DP.

Members can join and participate in the 40th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 40th AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 40" AGM shall be provided in the Notice of the 40" AGM, which will be sent to Members through e-mail shortly. The Notice shall also contain the instruction with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM acility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on 28° May, 2024 recommended a dividend of ₹ 8/- per equity share (i.e. @ 80%) of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2024, subject to the approval of the Members at the ensuing AGM of the Company. The dividend will be paid within 30 days from the date of the ensuing AGM of the Company to all those (a) beneficial owner holding shares in electronic form as per beneficial ownership data made available to the Company by the depositories as on Wednesday the 21st August, 2024 (b) members holding shares in physical form, after giving effect to all the valid share transmission or transposition request lodged with the Company/RTA on or before Wednesday the 21st

Further, in pursuance to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020. dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Members, therefore, the Company is required to deduct tax at source at the time of making payment of dividend at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof as well as our detailed communication already sent to the Members through e-mail which is available at https://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/Communicationin-respect-to-Deduction-of-Tax-at-source-on-Dividend-dated-18.07.2024.pdf.

Pursuant to MCA General Circular 20/2020 dated 5th May, 2020 Companies are directed to credit the dividend of the shareholders directly to the bank accounts of the shareholders using Electronic Clearing Service. Further, effective from 1th April, 2024, SEBI has mandated that the shareholders, who hold shares in physical mode and who have not updated PAN and KYC details in their folios shall, inter-alia, be eligible to get dividend only through electronic mode after updating PAN and KYC details in their folios. Accordingly, Members holding shares in physical form are requested to provide/update their PAN and KYC details with the RTA in prescribed forms as available on the Company's website at www.indiaglycols.com. Members holding shares in electronic form are requested to update their KYC details and bank mandates with their respective Depository Participants. In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at admin@mcsregistrars.com or Company at compliance officer@indiaglycols.com

For India Glycols Limited

Place : Noida Ankur Jain Date : 30th July, 2024 Company Secretary

5M/	ARTSPACES Regd. Office: 24, Government Servant's Society, Near Municipal Market, Off. Co Contact: 079 6826 7000 Website: www.arvindsmartspaces.com			±d-380009.∷	
	EXTERACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUAR	TER ENDED ON	30 <sup>TH</sup> JUNE, 200		otper share dat
Sr.	Parfodars		Supriter ended a		Year ended o
Na.	MORE STOR	30.06.2024	31.03.2024	30.04.2023	31.03.2024
		Ursudited	Audited	Urgudited	Audited
1	Revenue from Operations	7447.01	11737.23	6693.61	34117.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary (terns)	743.20	2940.54	1309.11	7571.40
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	743.20	2840.54	1309.11	7571.40
4	Net Profit / (Lass) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	461.81	1950.62	910.04	5109.08
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	453.59	1930.37	905.79	5076.08
6	EquityShareCapital (Face Value ₹ 10.4 pershare)	4546.20	4534.40	4531.20	4534.40
7	Reserves (excluding Resolution Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		71	E 180	-
9	Famings Per Share (of ₹ 10 /- each) Basic :(₹) Diluted:(₹)	0.64 0.64	3.42 3.39	137 136	917 919
quarter Krancial The star	<ol> <li>These unaudited considirated financial results of Arvind SmartSpaces Limited ("Holding Company") and its suended 30th June, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Direcults are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (IndiAS) as prescribed under Section 1 address financial results for the quarter ended 30th June, 2024 are summarised below:</li> </ol>	frectors at their 133 of the Comp	meeting held or	130 th July, 2024.	The consolidat. R in Lac
Sv.	Particulars		Year ended o		
Na		30.06.2024	31.03.2024	30.04.2023	31.03.2024
		Ursudited	Audited	Uraudited	Audited
1	Revenue from operations	2415.95	6401.04	3233.53	15077.97
2	Profit before tax	785.97	2935.90	1479.32	6700.99
- 3	Profit after tax	629.63	2140.88	122103	5513.34

Place: Ahmedabad For, Arvind SmartSpaces Limited Karnel Singal Date: 30th July, 2024 Managing Director and CEO

# URJA GLOBAL LIMITED

Regd. Office: 487/63, 111 FLOOR, NATIONAL MARKET, PEERAGARHI, NEW DELHI - 110087 CIN:L67120DL1992PLC048983

35		Standalone			Consolidated			Standalone Consolidated		
S. No	PARTICULARS	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.06,2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	1,071.18	998.38	1,264.94	1,056.39	1,001.50	1,344,66	4,453.83	4,595.95	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	82.47	61.01	16.79	33.42	54.21	46.56	258.14	284.56	
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	82.47	61.01	16.79	33,42	54.21	46.56	258.14	284.56	
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	82.47	61.01	16.79	33.42	54.21	46.58	177.92	203.55	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	82,47	61,01	16,79	33.42	54.21	46.56	177,92	203,55	
6	Equity Share Capital	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	
7	Earnings per share (of Re.1/- each) (for continuing operations) 1. Basic (Absolute Figures) 2. Diluted	0.0150 0.0150	0.0110 0.0110	0.0030	0.0070 0.0070	0.0100	0.0090	0.0330	0.0380	

Place: New Delhi

Date: 30" July, 2024

- 1 The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
- 2 The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.
- 3 The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules. 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting, held on 30°, July 2024.

Segment wise sales: Electric Vehicles:	612.92		857.23	480.26		880.77	2014.29	2031.02
Renewable Energy Products	441.84	963.75	390.37	557.76	966.87	421.63	2318.55	2415.93
THE STATE OF THE S	1054.76	963.75	1247.61	1038.02	966.87	1302.4	4332.84	4446.95

For Urja Global Limited

Mohan Jagdish Agarwal Managing Director DIN: 07627568

# MAX ESTATES LIMITED

(CIN: L70200PB2016PLC040200) Registered office: 419, Bhai Mohan Singh Nagar, Village Railmaira, Tehsil Balachaur, District S B S Nagar (Nawanshahr), Punjab - 144 533 Tel. No.: 01881-462000, 462001 Fax: 01881-273607

Corporate Office: Max Towers, L-20, C-001/A/1, Sector - 16B, Gautam Buddha Nagar, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India, Tel: +91 120 474 3222 Email: secretarial@maxestates.in, Website: www.maxestates.in.

#### NOTICE OF 8" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 8" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Max Estates Limited ("Company") will be held on Friday, August 23, 2024 at 11.15 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard including the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circulars dated. May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding of the annual general meeting through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a venue to transact the Ordinary / Special Business as set out in the Notice of AGM. The deemed venue for the 8th AGM shall be the Registered Office of the Company. In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 shall be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are already registered with the RTA/ Depositories. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be made available on Company's website at www.maxestates.in, websites of stock exchanges viz., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

If your e-mail is already registered with the RTA / Depositories, Notice of AGM alongwith Annual Report for FY 2023-24 and login details for e-voting shall be sent to your registered e-mail address. In case you have not registered your e-mail ID with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your e-mail ID, for obtaining annual report for FY 2023-24 and for obtaining login details

The entire shareholding of the Company is in demat form. Therefore, please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address as per the process advised by DP where the concerned member maintains his / her demat accounts.

The Company is providing facility of remote e-voting / e-voting at AGM to all its members to cast their votes on resolutions set out in the notice of AGM through remote e-voting/e-voting at AGM.

The instructions for: (i) joining the AGM; (ii) the manner of participation in the remote electronic voting; and (iii) casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the notice of AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For Max Estates Limited

July 30, 2024

Abhishek Mishra Company Secretary Membership No. FCS - 9566

By order of the Board

#### NEELKANTH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS R T EXPORTS LIMITED)

CIN: L68100MH1980PLC022582 Registered Office: 508, Dalamal House, J.B.Marg, Nariman Point, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400021 Email: headoffice@rtexports.com Website: www.rtexports.com Telephone No: 022-22812000

NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VIDEO MEANS

The 44" Annual General Meeting ('AGMI/'Meeting') of Neelkanth Limited ('the Company') will be convened at 09.00 a.m. (IST) on Thursday, August 29, 2024 through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard the latest being dated September 25, 2023 by the Ministry of Corporate Afairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and other relevant circulars including Circulars dated January 5, 2023 and October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (\*Listing Regulations"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 23, 2024 to Thursday, August 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents 'Registrar'or'RTA')/Depository Participants ('DPs'). The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at headoffice@rtexports.com mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

Members whose email addresses are not registered can get their email addresses registered for the purpose of receiving Notice of the 44th AGM and Annual Report electronically and to receive credentials for remote e-Voting by sending a request to the Company at www.rtexports.com by quoting the following details:

- Name, mobile no, and email address
- Folio no. / DP ID and Client ID
- Self-attested copy of the PAN card and address proof viz. Aadhaar Card, Passport or front and backside of their share certificate (for Members holding shares in physical form)

The e-copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.rtexports.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of the AGM will also be available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company is listed i.e. at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility of NSDL before as well as during the AGM to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for such remote e-Voting will be provided in the Notice

> For Neelkanth Limited (Formerly known as R T Exports Limited) Asha Dawda Director

Place: Mumbai DIN: 06897196 Date: July 30, 2024 "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verity its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

#### 000 DCM Nouvelle Limited CIN: L17309DL2016PLC307204

Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008

Tel: 011-45013348 | Email Id: info@dcmnvl.com EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (In ₹ Lakh, except per equity share data)

		Year Ender		
Particulars	30/06/2024 (Un-Audited)	31/03/2024 (Un-Audited)	30/06/2023 (Un-Audited)	31/83/202 (Audited
Total income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before tax,	27,080	26,580	25,788	108,759
exceptional and/ or extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax	352	707	(87)	(304
(after exceptional &/ or extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(286)	707	(87)	(304
(after exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income	(349)	472	(89)	(410
(after tax)] Paid up equity share capital	(350)	443	(89)	(417
(face Value of ₹10/- each )	1,868	1,868	1,868	1,868
Other Equity Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing & discontinued operations)	*	34.5	1 (20)	29,687
-Basic and diluted (₹)	(1.87)	2.53	(0.48)	(2.20
1001			and the property	

Date: 30.07.2024

Place: New Delhi

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchnages under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on the Company's website: (www.dcmnvl.com) and websites of Bombay Stock Exchnage (www.bseindia.com) and National Stock Exchnage of India Limited. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation regulation 47(1)(b) of

(₹ in lakhs except as stated otherwise
Quarter Ended Year Ended
30/06/2024 31/03/2024 30/06/2023 31/03/2024 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)
ations 26,796 26,648 25,791 108,894
xceptional items) 216 828 3 199
ceptional items) 153 593 1 93
come 152 564 1 86
\$100 M & COURSE   100 M

of Directors at their respective meetings held on 29 July 2024. The Statutory auditors have carried out a limited review of the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30 June 2024 I. The Financial Results results have been prepared in accordance with the Indian Accounting

ended 30 June 2024, have been reviewed by the Audit. Committee and approved by the Board

Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder. By order of the Board of Directors **DCM Nouvelle Limited** 

Dr. Meenakshi Nayar (Chairperson and Director)

#### HGIEL H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED CIN: L45201RJ2003PLC018049

Regd. Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan 342001 Tel.:0291-2515327 Corp. Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001 Tel.: 0141-4106040-41, Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

### NOTICE OF 22" ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, August 21, 2024, at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of the AGM ('AGM Notice'), without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice

for the financial year 2023-24 has been electronically sent on Tuesday, July 30, 2024, by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Pvt. Ltd./ Depository Participants(s). The said Annual Report containing the AGM Notice is also available on the website of the Company at www.hginfra.com, on the website of M/s Link Intime India Pvt. Ltd. ('Link Intime'/ 'RTA') at https://instavote.linkintime.co.in/ and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its Members the e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e., remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to Members during the AGM, who have not cast their vote by remote evoting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime to provide remote e-voting and e-voting during the AGM. Members will have the opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the

business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode and/or physical mode or members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the AGM Notice. nstructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the AGM

The Members are hereby requested to note that:

- A. A person whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners maintained by the RTA/ Depositories as on Wednesday, August 14, 2024, being the "Cut-Off" date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- B. The remote e-voting period will commence on Sunday, August 18, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, August 20, 2024 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by Linkin time thereafter. During this period, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-Off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 20, 2024. Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall
- C. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date.
- D. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system available E. The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM
- F. Any member, including a person who becomes a member of the Company after sending the AGM Notice by email and holding shares as on the Cut-Off date, may cast

through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

- their vote in the AGM as per instructions explained in the AGM Notice. Please refer to instructions provided in the AGM Notice for process and manner to attend the AGM. G. Members whose email ID is not registered, may refer 'Registration of email ID' as
- H. The Board of Directors has appointed Mr. Deepak Arora (FCS 5104; CP 3641). Partner of M/s Deepak Arora & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and
- In case members have any queries regarding attending AGM/ remote e-Voting/evoting during the AGM, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058 at email: enotices@linkintime.co.in /instameet@linkintime.co.in orTel.:022-49186000/022-49186175.
- J. The Company has fixed Wednesday, August 14, 2024, as the 'Record Date' for determining entitlements of members for receiving the final Dividend (@15% i.e. R-1.50/- per equity share having a face value of Rs. 10/- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2024. If approved at the AGM, the payment of dividend shall be made on or before Thursday, September 19, 2024.

For H.G. Infra Engineering Limited Ankita Mehra

Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 30, 2024 Place: Jaipur

M. No A33288 **SSAMCO** 

MUTUAL FUND

#### Samco Asset Management Private Limited A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013.

Tel: +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200

CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757.

Website: www.samcomf.com

Annual Report of the scheme(s) of Samco Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Samco Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated June 27, 2024, the Annual Report of all the Schemes of Samco Mutual Fund ("SMF") for the financial year ended March 31, 2024 have been hosted on the website of the Fund www.samcomf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com, respectively.

NOTICE No. 28/2024

The Investors/Unitholders can view and download Annual Report of all schemes of Samco Mutual Fund from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report by writing to the AMC at the email address mfassist@samcomf.com or calling the AMC on the toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the official points of acceptance of SMF. For Samco Asset Management Private Limited

(Investment Manager for Samco Mutual Fund)

Authorized Signatory

Date : July 30, 2024 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,

READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

# सात्विक और चिराग की जोड़ी एक और जीत के साथ ग्रूप सी में शीर्ष पर

और पदक की दावेदार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोडी ने मंगलवार को यहां पेरिस ओलंपिक की बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में मुहम्मद रियान अर्दिआंतो और फजर अल्फियान की इंडोनेशिया की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर ग्रुप सी में शीर्ष स्थान हासिल किया। दुनिया की पांचवें नंबर की सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने अर्दियांतो और अल्फियान की दुनिया की सातवें नंबर की जोड़ी को 40 मिनट में 21-13, 21-13 से हराया। ये दोनों जोडियां पहले ही अंतिम आउ में जगह बना चुकीं थी और इस मुकाबले से ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का फैसला हुआ। भारतीय जोड़ी ने ग्रुप में अपने सभी मैच जीते। अर्दियांतो और अल्फियान के खिलाफ छह मैचों में सात्विक और चिराग

कार्य का नाम

ग्राम सभा बोहराकोट में जी जी आई सी. के पास पैटल मार्ग पर

व्यविद्यस्त प्रलिया का प्रानिर्माण एवं चेनलिंग कार्य भाग-1 (बि.ख.कमगढ़)

विश्वायक निश्वि से धनरांत्रि स्वीकृति की प्रत्याशा में 'राम सेवक सभा समिति' नेनीताल में आर सी.सी. बोम एवं स्लेब का अवशेष कार्य

प्रांसद निश्वि के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद नैनीताल के ग्राम पैचार

अमेल तहसील एवं विकासखण्ड बेतालघाट में भिमया बब वे

प्रमीप सार्वजनिक स्थान पर विश्राम कक्षा का निर्माण कार्य।

सांसट निश्वि के अन्तर्गत स्त्रीकत जनपट नैनीताल के ग्राम हस्तपा

जिल मन्दिर फलनाचक तक सार्वजनिक सी सी. मार्ग का निर्माण

पत्रांक : 02/जिला योजना/निविदा सूचना/2024-25

भवन मौना में विक्रय किये जायेगे।

विवरण

ग्राम पंचायत मौना विकास खण्ड रामगढ में

मुख्य बाजार से पक्की नाली निर्माण कार्य

चिराग की जोडी ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल टीम है। खेल की वैश्विक संचालन संस्थान बैडिमंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने कहा है कि पुरुष युगल के नॉकआउट दौर के लिए ड्रॉ बुधवार को होगा। भारत और इंडोनेशिया की जोड़ी के बीच शुरुआत से ही प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन सात्विक और चिराग की जोड़ी पूरे मुकाबले के दौरान एक बार भी नहीं पिछडी। दोनों जोडियों ने तेज खेल दिखाया जिससे शरुआत में अधिक रैली नहीं दिखीं। सात्विक-चिराग ने हालांकि बॉडीलाइन शॉट से कछ अच्छे अंक जटाए जबकि कोर्ट से काफी अच्छी तरह सामंजस्य बैठाया। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग ने पहले गेम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से अभेहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्माण कार्यों की मुहस्बन्द निविदा दिनांक 08.08.2024 के अपरान्ह 1.00 बजे तक ग्रामीण निम

विभाग, प्रखण्ड कार्यालय नैनीताल स्थित विकास भवन भीमताल में आमन्द्रित की जाती हैं। जो उसी दिन अपरान्द २.०० बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं निविदा समिति के सम

भभोहर्रवाक्षरी अथवा नामित प्रतिनिधि द्वारा खोली जारेगो।निविदा प्रपत्नों का विक्रय, दिनोंक 07.08.2024 को सार्य 4.00 बजे तक ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जिन

स्वाक्षर ठेकेदार द्वारा प्रमाणित किये गये हों, को निर्भारित निविदा मूल्य (राजस्व) का चालान एवं जी.एस.टी. चालान की पृथक-पृथक प्रति जमा करने एवं बोछित जमानत राष्टि

12000,00

की प्रति प्रस्तत करनी होगी. निवदा प्रपत्र मत्य के ई-चालान में सम्बन्धित कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। २. निवदा क्रय करने से पर्व निवदा की शेष शर्ती की जनकारी प्रायण्डा उपयण्ड कर्यांव

से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निवल की शर्तों के अनुरुप ही कमेरी हाव निवल खोकार की जायेगी। ३. निविललाको निवल के साथ जी.एस.री. से सम्ब

मदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) तथा उपमस्त देय विवस्ण (Statement) एवं (Return) जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवाद होगा। निविदादाता जिस राज्य में (GST) र्गजेकृत हे उस राज्य के क्षेत्राधिकार कर प्राधिकारी (State Jurisdictional Tax Authority) हारा संदर्धित प्रमाण पत्र जारी किया जारीगा जहां आपूर्तिकर्ती पंजीकृत है। निविदादाता के केन्द्रीय क्षेत्राधिकार

भधीन होने पर संदर्भित प्रमाण पत्र ऐसे कच क्षेत्राधिकार कर प्राविकारी द्वाव जावे किया जायेगा जिसके भौगोलिक क्षेत्र की सोमाओं के अन्तर्गत उकत केन्द्रीय कर प्रशासित आपूर्विकर्तारिनिवरादाता अवस्थित है

भनुमानित लागत | धरोहर धनराशि | निविदा प्रपत्र का | कार्य पूर्ण

मूल्य + जीएसटी की अविध की वैधत

.म्.रु. 1000.00 S.S.T. रु. 180.00

ने.म्.रु. 5∞.∞ G.S.T. २६ ९०.००

नि.म्.रु. 500.00 + G.S.T. रु. 90.00

कार्यालय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत, मौना ( नैनीताल )

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम पंचायत मौना विकास खण्ड रामगढ में निम्न कार्य

हेतु विकास खण्ड रामगढ् में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 07.08.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की

जाती है, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोले जायेगे। टेण्डर स्वीकृत

एवं अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदादाता का किसी भी प्रकार का कोई दावा/क्लेम एवं

सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता को धरोहर राशि एन.एस.सी. अथवा डाकघर बचत पासबुक राष्ट्रीयकृत एफ.डी.आर.

के ग्राम पंचायत के नाम से बंधक करते हुए प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म एवं अन्य प्रपत्र दिनांक 06.08.2024 को पंचायत

धरोहर राशि

14000.00

धनराशि

7 लाख

निविदा प्रपत्र

का मूल्य

1000+

जी.एस.टी.

निविदा की

30 दिन

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत, मौना, वि.ख. रामगढ़ ( नैनीताल )

ास्तत किये जाने पर प्रखण्ड कार्यालय ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल स्थित विकास भवन भीमताल में किया जायेगा।

की लेकिन इसके बाद 5-5 और 7-7 से स्कोर बराबर रहा। भारतीय जोडी ने 9-8 के स्कोर पर लगातार तीन अंक के साथ 12-8 की बढत बनाई। अर्दियांतो और अल्फियान ने भी बीच-बीच में कुछ अच्छे अंक जुटाए। इंडोनेशिया की जोड़ी के ड्रॉप शॉट दर्शनीय थे जबकि नेट पर भी उन्होंने अच्छा खेला दिखाया। भारतीय जोडी ने हालांकि कोर्ट पर तेजी दिखाई और अपनी बढ़त बरकरार रखी। सात्विक और चिराग ने स्कोर 17-12 किया। सात्विक और चिराग ने 19-13 के स्कोर पर विरोधी जोडी के नेट पर शॉट मारने से सात गेम प्वाइंट हासिल किए और फिर सात्विक ने दोनों खिलाड़ियों के बीच स्मैश लगाकर पहला गेम 16 मिनट में जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने इस बीच लगातार चार अंक जुटाए। दुसरे गेम में भी भारतीय

भवन निर्माण)

बनाई। इंडोनेशिया की जोडी हालांकि हार मानने को तैयार नहीं थी। अर्दियांतो और अल्फियान ने स्कोर ६-६ किया। चिराग ने 10-8 के स्कोर पर शानदार सर्विस पर अंक जुटाकर ब्रेक तक भारतीय जोड़ी की बद्धत को 11-8 तक पहुंचाया। भारतीय जोडी ने ब्रेक के बाद बढत को 14-8 किया। अर्दियांतो लगातार तीन अंक के साथ कोशिश की और स्कोर 12-15 किया जोडी लगातार चार अंक के साथ 19-12 से आगे हो गई। भारतीय जोडी को 20-13 पर सात मैच प्वाइंट मिले

पर शॉट मारकर गेम और मैच में डाल दिया।

#### सूचना

जोडी

हमारी फर्म मैं, महादेव ऐसोसिएट स्थित राजाजीपुरम, 01 निकट कल्याण फिलिंग स्टेशन, बाजपर रोड पंजीयन (UKFIRM0670724010135) के साक्षीदार श्री हरदेव सिंह फर्म में दिनांक 01.07.2024 को रिटायर हो गये है तथा फर्म में श्रीमती संगीता राज को नवीन साझीदार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में फर्म साझीदार निम्न है-सोनी देवी (50%) व संगीता राज (50%) यदि किसी आपत्ति है तो विज्ञप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति चिट्स एवं फर्म पंजीयन कार्यालय उधमसिंह नगर में प्रेषित करें।

कृते महादेव एसोसिएट्स पार्टनर

दिनांक : 30.07.2024

कार्य पूर्ण करने

की अवधि

# नौकायन खिलाड़ी बलराज फाइनल में पांचवें स्थान पर, 13वें से 24वें स्थान के लिये खेलेंगे

पेरिस । पेरिस ओलंपिक में नौकायन में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि बलराज पंवार पुरुषों की एकल स्कल में अपनी हीट रेस में पांचवें स्थान पर रहे और अब 13वें से 24वें स्थान के लिये खेलेंगे। 25 वर्ष के पंवार ने क्रार्टर फाइनल में चौथी हीट में सात मिनट और 5.10 सेकंड का समय निकाला। वह सेमीफाइनल सी.डी में खिसक गए जिसके मायने हैं कि ये खिलाड़ी 13वें से 24वें स्थान के लिये उतरेंगे। पंवार रेपेचेज दौर की रेस में दूसरे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। वह शनिवार को पहले दौर की हीट रेस में चौथे स्थान पर रहकर रेपेचेज में पहुंचे थे। चार क्वार्टर फाइनल हीट में शीर्ष तीन पर रहने वाले खिलाड़ी सेमीफाइनल ए.बी में पहुँचे जो पदक के लिये मुकाबला करेंगे।

# ओलंपिक तीरंदाजी : भजन कौर अंतिम 32 में सात्विक और विराग की भोली पहुंची, अंकिता का महिला एकल में सफर खत्म

मंगलवार को यहां इंडोनेशिया की साइफा नरफीफा कमाल को 7-3 से शिकस्त दी जबकि अंकिता भकत को पोलैंड की वियोलेटा मैसजोर से 4-6 हार का सामना करना पड़ा। भजन ने शुरुआती सेट में साइफा के साथ अंक साझा किये जबकि इंडोनेशिया की तीरंदाज ने दसरे सेट को जीतकर भारतीय खिलाडी पर दबाव बना दिया। क्वालीफिकेशन में 22वें स्थान पर रहने वाली भजन ने इसके बाद दबाव में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने तीसरे सेट में अच्छी वापसी करते

सम्मन

यायालय सहायक कलेक्टर प्रश्नम

काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

**वादी**- श्रीमती प्रीति अरोरा पत्नी विजय

अरोरा निवासी गिरीताल कॉलोनी,

खनाम **प्रतिवादी** - उत्तराखण्ड सरकार

अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए. एक्ट

हर आम व खास को सूचित किया

जाता है कि श्रीमती प्रीति अरोरा पत्नी

विजय अरोरा निवासी गिरीताल

कॉलोनी, काशीपुर जिला उधमसिंह

नगर द्वारा ग्राम धनौरीपट्टी काशीपुर

के खसरा सं. 103/2मि. रकब

0.0501 है, कृषि भूमि से अकृषक

भूमि घोषित कराने हेतु मेरे न्यायालय

में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थाना

पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें सुनवाई हेत्

दिनांक 07.08.2024 मेरे न्यायालय मे

नियत है अगर किसी को उक्त के विषय

में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति

नियत दिनांक तक मेरे न्यायालय में

अस्रालतन या वकालतन उपस्थित

होकर प्रस्तुत कर्रे अन्यथा प्रार्थनापत्र का

यायालय सहायक कलेक्टर प्रश्नम

आज्ञा से- रीडर

काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

श्रेणी/ उप जिलाधिकारी,

निस्तारण कर दिया जाएगा।

3

मौजा धनौरीपट्टी

**राजस्व बाद संख्या :** 22/336

काशीपुर जिला उधमसिंह नगर

उप जिलाधिकारी,

श्रेणी/

वर्ष 2023-24

**पेरिस ।** भारतीय तीरंदाज भजन कौर हुए 10-10 के दो निशाने के साथ 29 का स्कोर किया। भजन ने चौथे सेट में साइफा के 25 के मुकाबले 27 अंक जुटाकर 5-3 की बढत बनायी और फिर आखिरी सेट में 25 के मुकाबले 28 अंक बनाकर जीत पक्की कर ली। इससे पहले अंकिता पोलैंड की खिलाड़ी के खिलाफ बदत लेने बाद लय गंवा बैठी। पहला सेट गंवाने के बाद अंकिता ने दसरे और तीसरे सेट को जीत कर अच्छी वापसी की थी लेकिन पोलैंड की निशानेबाज ने आखिरी दो सेट में शानदार एकाग्रता दिखाते हुए जीत दर्ज की।

यायालय सहायक कलेक्टर प्रश्नम उप जिलाधिकारी श्रेणी/ काशीपर, जिला उधमसिंह नगर राजस्व वाद संख्या : 22/333

वर्ष २०२३-२४

वादी- श्री सोनू कुमार पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम ध्याननगर पो. व तहसील जसपुर जिला उधमसिंह नग

प्रतिवादी- उत्तराखण्ड सरकार

मौजा ढिकयागुलाब हर आम व खास को सूचित किय नाता है कि श्री सोनू कुमार पुत्र कर

सिंह निवासी ग्राम ध्याननगर पो. व तहसील जसपुर जिला उधमसिंह नग द्वारा ढिकयागुलाबी तहसील काशीपुः के खसरा सं. 110/1मि. रकबा 1000 वर्गफिट यानि 92.93 वर्ग मी. यानि 0.0092 है, कृषि भूमि से अकृषक भूमि घोषित कराने हेतु मेरे न्यायाल में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें सुनवाई हेत दिनांक 07.08.2024 मेरे न्यायालय म नियत है अगर किसी को उक्त के विष में आपत्ति हो तो वह अपनी आपि नियत दिनांक तक मेरे न्यायालय मं असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।

आज्ञा से- रीडर यायालय सहायक कलेक्टर प्रश्नम श्रेणी/ उप जिलाधिकारी काशीपुर, जिला उधमसिंह नग

#### 🚺 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड सी आई एन: L24111UR1983PLC009097

जिन्होंने दुर्नामेंट में सात

जबकि दीप्ति शर्मा तीसरे

पर बल्लेबाजों

सोफी एस्सेलेटोन शीर्ष पर हैं

स्मृति मंधाना, रेणुका ठाकुर रैंकिंग

मंधाना आईसीसी टी20 रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है

पायदान चढकर चौथे स्थान पर विकेट लिये थे। इंग्लैंड की

स्थान

में चौथे और पांचवें स्थान पर

सची में एक

ने श्रीलंका के खिलाफ महिला आस्ट्रेलिया की

एशिया कप टी20 ट्रनीमेंट में 60 बेथ मूनी और रन बनाये । उन्हें एक पायदान का ताहलिया मैकग्रा

फायदा मिला और उनके 743 पहले दो स्थान

रेटिंग अंक हैं। गेंदबाजों में रेणुका पर हैं।

दुबई। भारत की स्मृति 722

पहुंच गई जबकि तेज गेंदबाज

रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों में

पांचवें स्थान पर है। सलामी

बल्लेबाज और उपकप्तान मंधाना

भौतिक धारिता

डिमेट धारिता

बल्लेबाजों की

ा कार्यालयः ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तर दुरभाष: +91 5947 269000/269500; फैक्स: +91 5947 275315/269535 ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेबसाइट: www.indiaglycols.com

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओ ए वी एम) के द्वारा आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (''ए जी एम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''बी सी'')/अन्य ऑडियो विडियो** माध्यमों (''ओ ए वी एम'') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को प्रात: 11.00 बजे (आई एस टी) कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यतार प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वार जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 02/2022, 10/2022 एवं 09/2023 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 एवं 25 सितम्ब 2023 (''एम सी ए परिपन्न'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं. सेबी चओ /सीएफडी /सीएमडी १ /सीआईआर /पी / 2020 / 79. सेबी / एचओ /सीएफडी /सीएमडी 2 /सीआईआर पी/2021/11, सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, सेबी/एचओ सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी सीआईआर/2023/167 क्रमशः 12 मई 2020 15 जनवरी 2021 13 मई 2022 5 जनवरी 2023 एवं 7 अक्टूबर, 2023 ("से बी परिपन्नी") के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

एम सी ए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में 40वीं ए जी एम की सूचना और विलीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल द्वारा मेजी जाएगी जिनके ई-मेल रते कम्पनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (''डी पी'') के पास पंजीकृत होंगे, जब तक कि किसी सदस्य ने इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किया हो। 40वीं ए जी एम की सूचना औ बार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.indiaglycols.com</u>, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एन एस डी एल") की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> और स्टॉक एक्सचेंजॉ, बी एस ई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइ www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराया है तो कपय नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करके वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेत् ई-मेल

VI.	arty:	
	मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदस्य का नाम, फोलियो नम्बर एवं सदस्य का पता, पैन काई की रच-सत्यापित प्रति, आधार काई की रच-सत्यापित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछें) की प्रति वर्णित करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कांपी के साथ लिखित अनुरोध एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड ("आर टी ए"), एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 या उनके ई-मेल: admin@mcsregistrars.com के माध्यम से मेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत (अपडेट कराएं।	
	डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे भौतिक धारिता के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करके क्लाइंट	

मास्टर कॉपी या समेकित डिमेट खाता विवरण की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी के साथ फोलियों नं, के स्थान पर 16 अंकों वाली डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य फॉर्म आई एस आर-आर टी ए के पास विवरण प्रस्तुत करें। इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर रखने करने वाले सदस्य अपने ही सदस्यगण केवल वी सी/ओ ए वी एम सुविधा के माध्यम से 40वीं ए जी एम में शामिल एवं भाग ले सकते

हैं। 40वीं एजीएम में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए निर्देश और रिमोट इलेक्टॉनिय

टिंग या 40वीं ए जी एम के दौरान एन एस डी एल के ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की

प्रक्रिया 40वीं ए जी एम की सूचना में उपलब्ध कराई जाएंगे जिसके लिए जल्द की सदस्यों को ई-मेल भेजा जाएगा। भौतिक रूप में अध्यवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पत कंपनी अथवा संबंधित डी पी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उन के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल्स के संबंध म अनुदेश भी सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की णना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जाएगी सदस्यगण ध्यान दे कि निदेशक मंडल ने 28 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 हों समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के रु. 8/- प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात @ 80%) लामांश की सिफारिश की है जो कम्पनी की आगामी ए जी एम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन किये जाने के अधीन हैं। कम्पनी की आगामी ए जी एम की तिथि से 30 दिनों के मीलर उन सदस्यों को लामांश का भुगतान किया जाएगा जो (क) बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को डिपॉजिटरीज द्वारा कंपनी को उपलब्ध

कराए गए लामार्थी स्वामित्व डाटा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले लागांश स्वामी है (ख) बुधवार, 21 अगस्त, 2024 तक या उससे पूर्व कम्पनी/आर टी ए के साथ दर्ज सभी वैध शेयर पारेषण एवं स्थानांतरण अनुरोध को प्रभावी करने के बाद भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसरण में अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित किया जाने वाला लागांश शेयरधारकों की ओर करयोग्य होगा, इसलिए कम्पनी को लागांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों हेतु कृपया वित्त अधिनियम, 2020 एवं उसके

किये गये संशोधनों के साथ ही ई-मेल के माध्यम से पहले से सदस्यों को भेजे गये विस्तृत पत्राचार क अवलोकन करें जो कि https://www.indiaglycols.com/wp-content/uploads/Communication-inrespect-to-Deduction-of-Tax-at-source-on-Dividend-dated-18.07.2024.pdf ਧਾ ਰਧਨਾਕਪ हੈ क्लीयरिंग सर्विस का उपयोग करके सदस्यों के लाभांश सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने के निर्देश हैं इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, सेबी ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जो सदस्य भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने अपने फोलियो में पैन और के वाई सी विवरण अपडेट नहीं किया है.

वे अन्य बातों के अलावा, अपने फोलियों में पैन एवं के वाई सी विवरण अपडेट करने के बाद ही केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लामांश प्राप्त करने के पात्र होंगे। तद्भसार, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट <u>www.indiaglycols.com</u> पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों में आर टी ए के पास अपना पैन एवं के वाई सी विवरण उपलब्ध/अपडेट कराएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुसंध है कि वे अपने सम्बध्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिमेंट के पास अपने के वाई सी विवरण एवं बैंक अनिवार्यता को अपडेट कराएं।

किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण आर टी ए के ई-मेल admin@mcsregistrars.com या कम्पर्न

अंकुर जैन कम्पनी सचिव

दिनांक : 30 जुलाई, 2024

के ई-मेल compliance.officer@indiaglycols.com पर अपना मेल भेज सकते हैं। है। उक्त निविदा सूचना पर किसी भी प्रकार का सँशोधन होने की दशा में संशोधन का प्रकाशन कृते इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड कंवल निगम वैबसोइट kmunin के माध्यम से किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण

## उत्तराखण्ड पावर कारपरिशन लि.

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, तिकोनिया, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ( नैनीताल ) 263139 फोन एवं फैक्सः 05946-220172, E-mail:eddhld@yahoo.com

# निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुभवी, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, आयकर, जी.एस.टी., ई.पी.एफ. में पंजीकृत एवं शासन व विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों/एजेन्सियों से निम्न कार्य/सामग्री आपूर्ति हेतु महरबन्द निविदायें पृथक-पृथक दो भागों में दिनांक 22.08.2024 के अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 03.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता या उनके मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। निविदा- प्रपत्र के भाग-1 में अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिभृति धरोहर राशि जो एन.एस.सी./एफ.डी.आर. के रूप में बंधक और सम्बन्धित कार्य का अनुभव अभिलेख एवं ई.पी.एफ. व जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण आदि संलग्न होना अनिवार्य होगा तथा दूसरे मुहरबन्द भाग में निविदा प्रपत्र दरें एवं अन्य शर्ते होनी चाहिए। धरोहर राशि तथा अन्य अभिलेखों के अभाव में निविदा का दूसरा भाग किसी भी दशा में नहीं खोला जाएगा। कटी फटी एवं शर्त सहित निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदा के साथ दरों की वैधता रु. 10.00 के स्टाम्प पर देनी आवश्यक हैं।

क्र. सं.	कार्य∕ सामग्री का विवरण	धरोहर धनराशि	कार्य/ आपूर्ति का समय	निविदा संख्या	निविदा की धनरांशि रु.
1.	विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, सुभाषनगर, हल्द्वानी के अन्तर्गत 33 के.वी. गौलापार से निकलने वाले दानीबंगर व कालीचौड़ पोषकों को पृथक कर दो नये फीडर बागजाला व दौलतपुर के निर्माण का आपूर्ति सहित कार्य। मद- प्रणाली सुधार	30400.00	03 माह	EDD(T)H/ 11/2024-25	1000.00 + 180.00 (18% GST)
2.	विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, सुभाषनगर, हल्द्वानी के अन्तर्गत जी.आई.एस. उप-संस्थान पुराना डीजल पावर हाउस काठगोदाम के लिए 33 के.वी./ओवरहेड लाईन के निर्माण का आपूर्ति सहित कार्य। मद- प्रणाली सुधार	38700.00	03 माह	EDD(T)H/ 12/2024-25	1000.00 + 180.00 (18% GST)
3.	विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, सुभाषनगर, हल्द्वानी के अधीन 33 के.वी. उप-संस्थान गौलापार से निकलने वाले नलकुप पोषक की 11 के.वी. एवं एल.टी. विद्युत लाईन के अतिभारित होने के कारण जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त कन्डक्टर केबिल, झुके पोल की मरम्मत सुधारीकरण का आपूर्ति सहित कार्य मद- ओ.एण्डएम.	42000.00	03 माह	EDD(T)H/ 13/2024-25	1000.00 + 180.00 (18% GST)

निविदा प्रपत्र जी.एस.टी. रजि. प्रमाण पत्र उपलब्ध करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 21.08.2024 तक निविदा की राशि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हल्द्वानी के नाम बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किये जाने के उपरान्त प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह निविदा को निरस्त कर सकते हैं। उक्त तिथियों में

अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस पर बेची व खोली जायेंगी।

Customer Care Toll Free No. 1912 नोट: नोटिस बोर्ड 'राष्ट्रहित में बिजली बचाएं'

> अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (नगर), हल्द्वानी

## विस्तार बिन्दु हेतु बागेश्वर, धारचुला, पर्वत नैनीताल।

होमोडलिवरों कार्य हेतु आंत अल्पकालीन ई-निविदाए आमन्त्रित को जाती है। होम डिलीवरी हेतु- अल्मोड़ा (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) हल्द्वानी (द्वितीय भाग) धारानौला, बागेश्वर, चौरगलियां नानकमता।

कार्यालय कमाऊँ मण्डल विकास निगम लि., ओक पार्क हाउस मल्लीताल, नैनीताल

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

निगम द्वारा संचालित निम्नलिखित गैस एजेन्सियों में गैस बुलान एवं गैस

होमडिलीवरी एवं विस्तार बिन्दु हेतु सोमे धर, बल, ताकुला, जैती, स्याल्दे, काण्डा चम्पावत देवीपुरा, झुलाघाट।

निविदा उत्तराखंड ई-निविदा पोर्टल वेब साइट www.uktenders.gov.in के माध्यम से दिनाक 06.08.2024 ऑनलाईन आमन्त्रित की जाती है जो दिनांक 07.08.2024 की समय प्रात: 11.00 बजे ऑनलाईन खोती जायेगी | ई-निविदा से सम्बन्धित फार्म / समस्त विवरण/नियम एवं शर्ते ई-निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in निगम वैबसाइट यह्न1.हुडु में उपलभ

बताये एक या सभी ई-निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

# प्रबन्ध निदेशक

## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

# विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), हल्द्वानी (नैनीताल)

	0.72			.07			
क्र. सं.	ई- निविदा संख्या	सामग्री का नाम	निविदा प्रपत्र मूल्य जीएसटी सहित ( रु. ) ( बैंक ड्राफ्ट )	( रु. में )	ई-निविदा क्रय करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	ई-निविदा भाग-1 खुलने की तिथि एवं समय
1.	ई.डी.डी. आर. (एच.)/ ई- निविदा 22/2024-25	अनुरक्षण मद में इस खण्ड के अर्न्तगत विद्युत वितरण उपखण्ड लालकुआं हेतु एक नग बोलेरो मेक डीजल जीप बन्द बॉडी मय चालक सहित (मॉडल 2020 से पूर्व की मान्य नहीं होगी) को 12 माह हेतु किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।	295.00	15,000.00	13.08.2024 (15.00 बजे तक)	14.08.2024 (02.00 बजे तक)	14.08.2 <b>0</b> 24 (03.00 बजे)
2.	ई.डी.डी. आर. (एच.)/ ई– निविदा 23/2024–25	अनुरक्षण मद में इस खण्ड के अर्न्तगत विद्युत वितरण उपखण्ड टी.पी. नगर हेतु एक नग बोलेरो मेक डीजल जीप बन्द बॉडी मय चालक सहित (मॉडल 2020 से पूर्व की मान्य नहीं होगी) को 12 माह हेतु किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।	295.00	15,000.00	13.08.2024 (15.00 बजे तक)	14.08.2024 (02.00 बजे तक)	14.08.2024 (03.00 অজ)

कार्य की मदें एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। 'राष्ट्रहित में बिजली बचाएं' विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाईन भुगतान हेतु WWW.upcl.org जायें।

**Customer Care Toll Free No. 1912** 

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), हल्द्वानी

संख्या: 2638 दिनांक: 30.07.2024

सं. 3719 दिनांक : 30.07.2024